

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन काउंसिल ने सिटी के नए आधिकारिक प्लान के लिए रोमांचक वर्क प्लान और भागीदारी संबंधी कार्यनीति मंजूर की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 जनवरी, 2020) – 22 जनवरी, 2020 को काउंसिल की विशेष मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने नए वर्क प्लान और सिटी के नए आधिकारिक प्लान – ब्रैम्पटन 2040 प्लान (Brampton 2040 Plan) के निर्माण में मदद के लिए व्यापक सामुदायिक भागीदारी संबंधी कार्यनीति मंजूर की।

2017 के पतझड़ में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी के बाद, काउंसिल द्वारा मई 2018 में ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) का समर्थन किया गया था। यह विजन सिटी के लिए अधिक स्थिर, शहरी और गतिशील भविष्य को दर्शाता है। [टर्म ऑफ काउंसिल प्रिओरिटीज \(Term of Council Priorities\)](#) में ब्रैम्पटन को इस भविष्य की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों का वर्णन किया गया है। ब्रैम्पटन 2040 प्लान इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नया आधिकारिक प्लान यह सुनिश्चित करने में दिशा प्रदान करेगा कि ब्रैम्पटन 2040 विजन की आकांक्षाओं को हासिल करने के लिए सिटी की पूरी प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स और विकास साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

ब्रैम्पटन 2040 विजन को तैयार करने में सिटी के स्टाफ की सहायता करने हेतु, सिटी ने लैंड यूज प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग और अर्बन डिजाइन; सामुदायिक और स्टेकहोल्डर भागीदारी; स्थिरता; ट्रांसपोर्टेशन; पर्यावरण संबंधी प्लानिंग; पार्क्स और ओपन स्पेस संबंधी प्लानिंग; कला, संस्कृति संबंधी प्लानिंग और विरासत की संरक्षण जैसे क्षेत्रों में बहु-विषयक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए [डबल्यू.एस.पी. कैनेडा ग्रुप लि. \(WSP Canada Group Ltd\)](#) को काम सौंपा है।

आज मंजूर किए गए वर्क प्लान के पांच चरण हैं। यह निवासियों के लिए सिटी के साथ शामिल होने के बहुत-से अवसरों और ब्रैम्पटन के भविष्य के बेहतर विकास के साथ, 2022 तक दो वर्ष तक के विस्तार वाले हैं।

### सामुदायिक भागीदारी के मुख्य चरण

**चरण 1: ब्रैम्पटन 2040 स्पीकर सीरीज (Brampton 2040 Speaker Series)** – यह उच्च स्तर के लक्ष्य वाले विजन को सफल कार्यान्वयन योजनाओं में परिवर्तित करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के साथ समुदाय में सिटी की प्लानिंग के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है।

**चरण 2: 2040 विजन का परीक्षण करना और डेटा अंतरालों की पहचान करना** – यह एक भागीदारी संबंधी प्रोग्राम है, जिसमें ब्रैम्पटन 2040 विजन का परीक्षण करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे और किसी भी ऐसे डेटे की पहचान की जाएगी, जो मौजूद हो सकता है।

**चरण 3: सामुदायिक ढांचा वर्कशॉप्स** – इस चरण के दौरान भागीदारी में सुझाव लिए जाएंगे क्योंकि सिटी, ब्रैम्पटन 2040 विजन में दिए गए सामुदायिक ढांचे पर आधारित है, इसका परीक्षण व पुष्टि करती है।

**चरण 4: चर्चा संबंधी पेपर और ड्राफ्ट पॉलिसी संबंधी निर्देश** – भागीदारी प्रोग्राम में मुख्य विषयों वाले क्षेत्रों (ब्रैम्पटन 2040 विजन के सात मुख्य स्टेटमेंट क्षेत्र) सुझाव लिए जाएंगे, जो ब्रैम्पटन 2040 प्लान के बारे में सूचित करेंगे, जैसा कि चर्चा संबंधी पेपर्स और पॉलिसी संबंधी निर्देशों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

**चरण 5: फाइनल OP पॉलिसीज** – इस चरण के दौरान सिटी, ड्राफ्ट ब्रैम्पटन 2040 प्लान (Draft Brampton 2040 Plan) में शामिल ड्राफ्ट पॉलिसीज के बारे में सुझाव लेगी।

कार्यनीति में दिए गए वर्क प्लान और सामुदायिक भागीदारी वाले अवसर, दूरदर्शी आधिकारिक प्लान प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। यह प्लान ब्रैम्पटन 2040 विजन की सफल प्रक्रिया के द्वारा विजन को दर्शाता है।

ब्रैम्पटन 2040 विजन के लिए वर्क प्लान और भागीदारी के बारे में और जानने के लिए, कृपया [रिपोर्ट \(report\)](#) देखें और कार्यनीति प्रदान किए जाने पर अपडेट्स और अवसरों के लिए [वेबसाइट \(website\)](#) पर जाएं।

## पृष्ठभूमि

सिटी के मौजूदा आधिकारिक प्लान को काउंसिल ने अक्टूबर 2006 में ग्रहण किया था। इसे आंशिक तौर पर अक्टूबर 2008 में ओनटैरियो म्युनिसिपल बोर्ड (ओ.एम.बी.) (Ontario Municipal Board) (OMB) द्वारा मंजूर किया गया था।

प्लानिंग एक्ट (Planning Act) के सेक्शन 26(1) में शर्त है कि हर मंजूर किए गए आधिकारिक प्लान में संशोधन पर विचार किया जाए, ताकि नए आधिकारिक प्लान के तौर पर लागू होने के 10 वर्ष बाद तक; और उसके बाद हर पांच वर्षों तक, प्रांतीय प्लान्स और पॉलिसीज के साथ इसके अनुकूलन और अनुरूपता को सुनिश्चित किया जा सके, जब तक कि इसे दूसरे नए आधिकारिक प्लान में परिवर्तित न किया जाए।

## हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी के अगले आधिकारिक प्लान का निर्माण करने के लिए पूरे समुदाय की भागीदारी वाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्साहित है। यह प्लान अब और भविष्य में सिटी के विकास के लिए मंच तैयार करने पर केंद्रित है। हमारा बहु-वर्षीय प्लान यह सुनिश्चित करेगा कि रोमांचक सामुदायिक विजन को ऐसे परिणामों में परिवर्तित किया जाता है, जो ब्रैम्पटन में हर किसी को लाभ पहुंचाते हैं।”

- मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown)

“काउंसिल के तौर पर हमारी प्राथमिकता, सिटी के लिए अधिक स्थिर, शहरी और गतिशील दिशा प्रदान करना है – और हमारा नया आधिकारिक प्लान यह सब करेगा। मैं ब्रैम्पटन के सभी निवासियों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे इस बारे में अपनी राय देने के कई अवसरों में से किसी एक में हिस्सा अवश्य लें कि हमारी सिटी का भविष्य कैसा हो।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट कमेटी

“आधिकारिक प्लान इस तरह से सिटी-निर्माण का कार्य करने के लिए सिटी के स्टाफ को और संदर्भ प्रदान करेगा, जो ब्रैम्पटन के लिए हमारी काउंसिल और निवासियों के विजन को पूरा करने के अवसरों को बढ़ाता हो। सिटी, ब्रैम्पटन 2040 की ओर आगे बढ़ने के लिए निवासियों और स्टेकहोल्डरों के साथ काम करने के लिए उत्साहित है।”

- डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)